

ये अव्यक्त इशारे

अब अपनी पुरानी नेचर व संस्कारों का परिवर्तन करो

2-11-2022

देह की आकर्षण के संस्कार जो न चाहते हुए भी खींच लेते हैं, इस संस्कार को परिवर्तन करने के लिए मुख्य दो बातों का ध्यान रखो: 1- हर एक के चरित्र को देखना है और 2- चैतन्य (विचित्र-आत्मा) को देखना है। वर्तमान समय मुख्य यही पुरुषार्थ चाहिए।

Now transform the old nature and old sanskars.

In order to transform the sanskar of being attracted to the body, which pulls you against your conscious wish, pay attention to two main things: 1) Look at everyone's (divine) character, and 2) Look at the living being. This is the main effort that is needed at the present time.